



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 28]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 1976/माघ 10, 1897

No. 28]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 1976/MAGHA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th January 1976

SUBJECT.—*Import Policy for the year April, 1975—March, 1976.*

No. 12-ITC(PN)/76.—Attention is invited to the import policy as contained in Import Trade Control Policy Red Book (Volume I) for the period April, 1975—March, 1976.

2. The following amendments shall be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Red Book (Volume I) for the period April, 1975—March, 1976:—

Page No.
of the
Red Book
(Vol. I)

Reference

Details of amendments

1

2

3

35

Section II, S.No. 44 (a)/I, The existing remark (4) may be deemed to have been substituted by the following:—

Column 4.

“(4) Import will not be permitted to the manufacturers of brass utensils. However, import will be allowed to units engaged in the melting of virgin metal, preparing/castings the metal into slabs or cakes and then rolling it in the rolling mills installed by the unit for the manufacture of brass sheets/circles.”

1

2

3

The following N.B. should also be deemed to have been inserted against this S.No. :—

“N.B. Units which qualified for the allocation of zinc in terms of remark (4) above, can also manufacture utensils out of brass sheets/circles, if they had also been engaged in manufacture of utensils and were in existence before 30th July, 1974.”

36 Section II, S.No. 47/I,
Column 4, Remark (2).

The existing remark (2) may be deemed to have been substituted by the following:—

“(2) Import of this item will not be permitted to the manufacturers of brass utensils. However, import will be allowed to units engaged in the melting of virgin metal, preparing/castings the metal into slabs or cakes and then rolling it in the rolling mills installed by the units for the manufacture of copper sheets/circles.”

The following N.B. should also be deemed to have been inserted against this S. No. :—

“N.B. Units which qualified for the allocation of copper in terms of remark (2) above, can also manufacture utensils out of copper sheets/circles if they had also been engaged in the manufacture of utensils and were in existence before 30th July, 1974.”

47 Section II, S.No. 38-A(C)/
II, Column 4.

The following new remark may be deemed to have been inserted:—

“(3) AU for import of Halogen lamps by the units engaged in the manufacture of profile projectors and optical comparators, tool room microscopes, optical liner scales, optical dividing heads and optical hardness testing machines.”

47 Section II, S.No. 41-A/
II, Column 4, remark
(2) (i).

The existing remark may be deemed to have been deleted.

62 Section II, Columns 1, 2,
3 & 4.

After the entry against S.No. 337 under Part IV, the following entries may be deemed to have been inserted in the respective columns:—

1

2

3

4

339 Synthetic stones

NIL

AU for import of synthetic ruby of dark red shade, in consultation with DGTD, for manufacture of industrial jewels.

63 Section II, S.No. 34-37(d)/
V, Column 4, Remark (2).

The existing remark may be deemed to have been substituted by the following:—

“(2) AU for import of pearl essence, on restricted basis, for manufacture of simulated pearls and acrylic plastic sheets.”

80 Section II, S.No. 122(li)-
others/V, Column 4,
Remarks (1) & (5)

(1) The following may be inserted as an additional item (ix) under item No. (1):
“(ix) Tripoli Powder”

(2) The following may be inserted as an additional item (ix) under Remark (5):

“(ix) Graphite Electrodes”

1	2	3
83	Section III, S.N. 41-A/II, item (1)-Graphite Electrodes, Columns 2, 3 and 4.	This item and the entry relating thereto may be deemed to have been deleted.
164	Section V, Appendix 16, Item No. 18, Column "End-Use"	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following:— "Import will be allowed to actual users, in consultation with DGTD."
184	Section V, Appendix 19, Annexure 5, List 'B'—Heading.	The following may be substituted as the revised heading:— "List of Ayurvedic and Unani Crude drugs to be allowed to be imported by actual users on restricted basis, i.e. upto 10 % of the entitlement, or Rs. 15,000/-, whichever is less."
185	Section V, Appendix 19, Annexure 5, List 'C', heading.	The following may be substituted as the revised heading:— "List of Ayurvedic and Unani Crude drugs to be allowed to be imported by actual users on restricted basis, i.e. upto 5% of the entitlement, or Rs. 7,500/-, whichever is less."
206	Section V, Appendix 26.	The following para may be inserted as an additional para 7-A before the existing para 8:— "7-A. Actual Users' applications from State Transport Authorities <i>only</i> will also be considered for import of spare parts of machinery installed by them in their workshops required for maintenance purposes. Import licences for spare parts will be granted to such undertakings on the basis of the policy followed for other actual users engaged in industrial production, as indicated in para 55 of Section I of this Red Book."
212	Section V, Appendix 28, list II, Item Nos. 42 & 64 Diethanolamine & Monoethanolamine.	These items may be deemed to have been deleted.
213	Section V, Appendix 28, List II, Item No. 128, Triethanolamine.	This item may be deemed to have been deleted.
214	Section V, Appendix 28, List III.	The following may be deemed to have been inserted at appropriate place as an additional item:— "85-A. Diethanolamine"
215	Section V, Appendix 28, List III.	The following may be deemed to have been inserted at appropriate place as an additional item:— "148-A Monoethanolamine"
216	Section V, Appendix 28, List III.	The following may be deemed to have been inserted at appropriate place as an additional item:— "226-A Triethanolamine"
220	Section V, Appendix 29, List I.	(1) The following item should be inserted as an additional item No. 15:— "15. Pearl essence Import will be allowed on restricted basis."
354	Section V, Appendix 74, S.No. 17(a)(i)(c)/II, Column 3.	The following revised entry may be deemed to have been substituted:— "20% or Rs. 10,000/-, whichever is less."

1	2	3
357	Section V, Appendix 74, Part V, Columns 1, 2 & 3.	The following entries shall be made after the existing S.No. 29(a) and before S.No. 34-37 (h)/V under the respective columns:
	1	2
	34-37(d)	Pearl essence
		50%
364	Section V, Appendix 74, 22-31/V, Item No. 67—Diethanolamine Columns 2 & 3.	This item and the entries relating thereto may be deemed to have been deleted.
366	Section V, Appendix 74, 22-31/V, Appendix 28, Item No. 99-(Monoethanolamine) Columns 2 & 3.	This item and the entries relating thereto may be deemed to have been deleted.
367	Section V, Appendix 74, 22-31/V, App. 28, Item No. 154-Triethanolamine. Columns 2 & 3.	This item and the entry relating thereto may be deemed to have been deleted.
367	Section V, Appendix 74, 34-37(d)/V, Appendix 29, Columns 2 & 3.	The following additional item (g) may be deemed to have been inserted after the existing item (f):
	2	3
	(g) Pearl essence	50%

D. D. JOSHI,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1976

विषय :—अप्रैल 1975—मार्च, 1976 वर्ष के लिए आयात नीति।

सं० 12-आई० टी० सी० (पी एन)/76.—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) में निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेड बुक	संदर्भ	संशोधनों के व्योरे
(वा० 1)		
की पृष्ठ		
सं०		

1	2	3
35	खंड 2, क्रम संख्या 44(ए)/1, वर्तमान अभ्युक्ति (4) के स्थान पर निम्नलिखित अभ्युक्ति प्रतिस्थापित की जाएगी :—	
	कालम 4.	
	“(4) पीतल के वर्तनों के विनिर्माण के लिए आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन, प्राकृतधातु, के	

1

2

3

पिघलाने, धातों को सिल्लियों या टिक्कियों में तैयार करने/ढालने और उसके बाद पीतल चद्दरों/वृत्तों के विनिर्माण के लिए एककों द्वारा लगाई गई रोलिंग मिलों में इसको बेल्डित करने में लगे हुए एककों को आयात की अनुमति दी जाएगी।” इस क्रम संख्या के सामने निम्नलिखित “विशेष ध्यान दीजिए” टिप्पणी भी निविष्ट की गई समझी जानी चाहिए :—

“विशेष ध्यान दीजिए :—जिन एककों ने उपर्युक्त अभ्युक्ति (4) की शर्तों के अनुसार जरते के आबंटन के लिए पात्रता प्राप्त करली है वे एकक पीतल चद्दरों/वृत्तों से बर्तनों के विनिर्माण भी कर सकते हैं बशर्ते कि वे बर्तनों के विनिर्माण में भी लगे हुए थे और 30 जुलाई, 1974 से पहले विद्यमान थे।”

36 खंड 2, क्रम सं० 47/1,
कालम 4 अभ्युक्ति (2).

वर्तमान अभ्युक्ति (2) के स्थान पर निम्नलिखित अभ्युक्ति प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :—

“(2) पीतल के बर्तनों के विनिर्माणकर्ता को इस मद के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्राकृत धातु के पिघलाने, उसको सिल्लियों या टिक्कियों में तैयार करने/ढालने और उसके बाद तांबा चद्दरों/वृत्तों के विनिर्माण के लिए एककों द्वारा लगाई गई रोलिंग मिलों में इसको बेल्डित करने में लगे हुए एकको को आयात की अनुमति दी जाएगी।”

इस क्रम संख्या के सामने निम्नलिखित “विशेष ध्यान दीजिए” टिप्पणी निविष्ट की गई समझी जानी चाहिए :—

“विशेष ध्यान दीजिए :—उपर्युक्त अभ्युक्ति (2) की शर्तों के अनुसार जिन एककों ने तांबे के आबंटन के लिए पात्रता प्राप्त करली है वे तांबा चद्दरों/वृत्तों से बर्तनों का विनिर्माण भी कर सकते हैं बशर्ते कि ये बर्तनों के विनिर्माण में भी लगे हुए थे और 30 जुलाई, 1974 से पहले विद्यमान थे।”

47 खंड 2, क्रम संख्या 38-ए
(सी)/2, कालम 4.

निम्नलिखित नई अभ्युक्ति निविष्ट की गई समझी जाए :—

“(3) प्रोफाइल प्रोजेक्टर्स तथा आप्टिकल कम्पैरेटर्स, टूल रूम माइक्रोसकोप्स, आप्टिकल लाइनर स्केल्स, आप्टिकल डिवाइडिंग हेड्स और आप्टिकल हार्डनेस टेस्टिंग मशीनों के विनिर्माण में लगे हुए एककों द्वारा हालोजन लैम्पों के आयात के लिए वास्तविक उपयोगिता।”

1

2

3

47	खंड 2, क्रम सं० 41-ए/2, कालम 4, अभ्युक्ति (2) (1).	वर्तमान अभ्युक्ति हटा दी गई समझी जाए।	
62	खंड 2, कालम 1, 2, 3, और 4.	भाग 4 के अन्तर्गत क्रम संख्या: 337 के सामने प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्बन्धित कालमों में निविष्ट की गई समझी जाएं :—	
1	2	3	4
339	संश्लिष्ट पत्थर	कुछ नहीं	स्याह लाल रंग के संश्लिष्ट माणिक्य के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता, महानिदेशालय तकनीकी विकास के परामर्श से, औद्योगिक रत्नों के विनिर्माण के लिए।
63	खंड 2, क्रम संख्या 34-37 (डी)/5, कालम 4 अभ्युक्ति (2)	वर्तमान अभ्युक्ति के स्थान पर निम्नलिखित अभ्युक्ति प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :— “(2) मुक्ता सार के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता, प्रतिबन्धित आधार पर, नकली, मुक्ताओं और एक्रिलिक प्लास्टिक चद्दरों के विनिर्माण के लिए।”	
80	खंड 2, क्रम सं० 122 (51)—अन्य/5, कालम 4, अभ्युक्तियां (1) और (5).	(1) निम्नलिखित मद, मद संख्या (1) के अन्तर्गत एक अतिरिक्त मद (9) के रूप में निविष्ट की जाए :— “(9) ट्रिपोली पाउडर.” (2) निम्नलिखित मद, अभ्युक्ति (5) के अन्तर्गत एक अतिरिक्त मद (9) के रूप में निविष्ट की जाए :— “(9) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स.”	
83	खंड 3, क्रम सं० 41-ए/2, मद (1)—ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, कालम 2, और 4.	यह मद और इससे सम्बन्धित प्रविष्टि हटाए गए समझे जाएं।	
164	खंड 5, परिशिष्ट 16, मद सं० 18, कालम “अन्तिम उपयोग.”	वर्तमान अभ्युक्ति के स्थान पर निम्नलिखित अभ्युक्ति प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :— “महानिदेशालय तकनीकी विकास के परामर्श से आयात को अनुमति वास्तविक उपयोक्ताओं को दी जाएगी।”	
184	खंड 5, परिशिष्ट 19, अनुबन्ध 5, सूची “बी” शीर्षक	निम्नलिखित को परिशोधित शीर्षक के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए :— “वास्तविक उपयोक्ताओं को प्रतिबन्धित आधार पर अर्थात् हकदारी के 10 प्रतिशत या 15000/- रुपये इनमें जो भी कम हो उस तक आयात किए जाने के लिए अनुमंय किए जाने वाले आयुर्वेदिक तथा यूनानी अपरिष्कृत भेषजों की सूची।”	

1

2

3

- 185 खंड 5, परिशिष्ट 19, निम्नलिखित को परिशोधित शीर्षक के रूप में प्रतिस्थापित
अनुबन्ध 5, सूची "सी" किया जाए:—
शीर्षक. "वास्तविक उपयोक्ताओं को प्रतिबन्धित आधार पर
अर्थात् हकदारी के 5 प्रतिशत या 7500/- रुपये
इनमें जो कम हो, उस तक आयात किए जाने के लिए
अनुमोदित किए जाने वाले आयुर्वेदिक तथा यूनानी
अपरिष्कृत भेषजों की सूची।"
- 206 खंड 5, परिशिष्ट 26. निम्नलिखित पैरा वर्तमान पैरा 8 से पहले अतिरिक्त पैरा
7-ए के रूप में निविष्ट किया जाए:—
7-ए, केवल राज्य परिवहन प्राधिकरणों के वास्तविक
उपयोक्ता आवेदनपत्रों पर भी उस मशीनरी के फालतू
पुर्जों के आयात के लिए विचार किया जाएगा जो अनु-
रक्षण उद्देश्यों के लिए अपेक्षित उनके कारखानों में लगाई
गई है। ऐसे संस्थानों को फालतू पुर्जों के लिए आयात
लाइसेंस इस रैंड बुक के खंड 1 के पैरा 55 में यथा
निर्दिष्ट औद्योगिक उत्पादन में लगे हुए अन्य वास्तविक
उपयोक्ताओं के लिए अनुसरण की गई नीति के आधार
पर प्रदान किए जाएंगे।"
- 212 खंड 5, परिशिष्ट 28, यह मद हटा दी गई समझी जाए।
सूची 2, मद सं० 42
तथा 64-डिएथैनोले-
माइन, और मोनोएथे-
नोलेमाइन.
- 213 खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची यह मदें हटा दी गई समझी जाएं।
2, मद सं० 128, ट्राइ-
थैनोलेमाइन.
- 214 खंड 5, परिशिष्ट 28, निम्नलिखित मद एक अतिरिक्त मद के रूप में उपयुक्त
सूची 3. स्थान पर निविष्ट की गई समझी जाए:—
" 85-ए डिएथैनोलेमाइन।"
- 215 खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची निम्नलिखित मद एक अतिरिक्त मद के रूप में उपयुक्त
3. स्थान पर निविष्ट की गई समझी जाए:—
" 148-ए मोनोएथेनोलेमाइन।"
- 216 खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची निम्नलिखित मद एक अतिरिक्त मद के रूप में उपयुक्त
3. स्थान पर निविष्ट की गई समझी जाए:—
"226-ए ट्राइथैनोलेमाइन।"

1	2	3						
220	खंड 5, परिशिष्ट 29, सूची 1	(1) निम्नलिखित मद अतिरिक्त मद संख्या : 15 के रूप में निविष्ट की गई समझी जाए:— “15 मुक्ता सार, आयात की अनुमति प्रतिबन्धित आधार पर दी जाएगी।						
354	खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम सं० 17 (ए) (1) (सी)/2, कालम 3.	निम्नलिखित परिशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई समझी जाए:— “20 प्रतिशत या 10,000/- रुपये जो भी कम हो,।”						
357	खंड 5, परिशिष्ट 74, भाग खंड 5, कालम 1, 2 और 3.	क्रम संख्या 29 (ए) के बाद और क्रम 34-37 (एच)/5 के पहले सम्बन्धित कालमों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएं:—						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>34-37 (डी) मुक्ता सार.</td><td>50 प्रतिशत</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3		34-37 (डी) मुक्ता सार.	50 प्रतिशत
1	2	3						
	34-37 (डी) मुक्ता सार.	50 प्रतिशत						
364	खंड 5, परिशिष्ट 74, 22-31/5, मद सं० 67 डिएथेनोलेमाइन कालम 2 और 3.	यह मद और इससे सम्बन्धित प्रविष्टियां हटा दी गई समझी जाएं।						
366	खंड 5, परिशिष्ट 74, 22-31/5, परिशिष्ट 28, मद संख्या 99 (मोनो-एथेनोलेमाइन) कालम 2 और 3.	यह मद और इससे सम्बन्धित प्रविष्टियां हटा दी गई समझी जाएं।						
367	खंड 5, परिशिष्ट 74, 22-31/5, परिशिष्ट 28, मद सं० 154-ट्रिएथेनोलेमाइन, कालम 2 और 3.	यह मद और इससे सम्बन्धित प्रविष्टि हटा दी गई समझी जाएं।						
367	खंड 5, परिशिष्ट 74, 34-37 (डी)/5, परिशिष्ट 29, कालम 2 और 3.	निम्नलिखित अतिरिक्त मद (जी) वर्तमान मद (एफ) के बाद निविष्ट की गई समझी जाए:—						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(जी) मुक्ता सार.</td><td>50 प्रतिशत.</td></tr> </tbody> </table>	2	3	(जी) मुक्ता सार.	50 प्रतिशत.		
2	3							
(जी) मुक्ता सार.	50 प्रतिशत.							

डी० डी० जोशी,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।